

# Jud

## Chapter 1

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

- 1 Ἰούδας, Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν Θεῷ  
यहूदा यीशु-के मसीह-के दास भाई और याकूब-का उन-को में परमेश्वर  
[G2455](#) [G2424](#) [G5547](#) [G1401](#) [G0080](#) [G1161](#) [G2385](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2316](#)
- Πατρὶ ἠγαπημένοις, καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς.  
पिता प्रिय और यीशु मसीह-में रखे-गए बुलाए-हुओं।  
[G3962](#) [G0025](#) [G2532](#) [G2424](#) [G5547](#) [G5083](#) [G2822](#)

यीशु मसीह के सेवक और याकूब के भाई यहूदा की ओर से तुम लोगों के नाम जो परमेश्वर के प्रिय तथा यीशु मसीह के लिए सुरक्षित तथा परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं।

- 2 ἔλεος ὑμῖν, καὶ εἰρήνη, καὶ ἀγάπη πληθυνθείη.  
दया तुम-को और शान्ति और प्रेम बढ़े।  
[G1656](#) [G4771](#) [G2532](#) [G1515](#) [G2532](#) [G0026](#) [G4129](#)

तुम्हें दया, शान्ति और प्रेम बहुतायत से प्राप्त होता रहे।

- 3 Ἀγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς ἡμῶν  
प्रियो सब प्रयत्न करते-हुए लिखने-को तुम-को विषय-में उस साझे हमारे  
[G0027](#) [G3956](#) [G4710](#) [G4160](#) [G1125](#) [G4771](#) [G4012](#) [G3588](#) [G2839](#) [G1473](#)
- σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν, παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἁπαξ  
उद्धार-के आवश्यकता हुई लिखने-की तुम-को समझाते-हुए लड़ने-को उस एक-बार  
[G4991](#) [G0318](#) [G2192](#) [G1125](#) [G4771](#) [G3870](#) [G1864](#) [G3588](#) [G0530](#)
- παραδοθείση τοῖς ἁγίοις πίστει.  
सौंपे-गए उन पवित्र-लोगों-को विश्वास-के-लिए।  
[G3860](#) [G3588](#) [G0040](#) [G4102](#)

प्रिय मित्रो, यद्यपि मैं बहुत चाहता था कि तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखूँ, जिसके हम भागीदार हैं। मैंने तुम्हें लिखने की और तुम्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता अनुभव की ताकि तुम उस विश्वास के लिए संघर्ष करते रहो जिसे परमेश्वर ने संत जनों को सदा-सदा के लिए दे दिया है।

- 4 παρεισέδυσαν γὰρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο  
घुस-आए तो कुछ मनुष्य जो पहले-से लिखे-गए के-लिए इस  
[G3921](#) [G1063](#) [G5100](#) [G0444](#) [G3588](#) [G3819](#) [G4270](#) [G1519](#) [G3778](#)
- τὸ κρίμα; ἀσεβεῖς τὴν, τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, χάριτα, μετατιθέντες εἰς  
उस दण्ड-के अभक्त उस उस परमेश्वर-के हमारे अनुग्रह-को बदलते-हुए में  
[G3588](#) [G2917](#) [G0765](#) [G3588](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1473](#) [G5485](#) [G3346](#) [G1519](#)

ἀσέλγειαν, καὶ τὸν μόνον Δεσπότην, καὶ Κύριον ἡμῶν, Ἰησοῦν Χριστόν,  
लुचपन और उस एकमात्र स्वामी और प्रभु हमारे यीशु मसीह-को  
[G0766](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3441](#) [G1203](#) [G2532](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#)

ἀρνούμενοι.  
इनकार-करते।

[G0720](#)

क्योंकि हमारे समूह में कुछ लोग चोरी से आ घुसे हैं। इन लोगों के दण्ड के विषय में शास्त्रों ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ये लोग परमेश्वर विहीन हैं। इन लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को भोग-विलास का एक बहाना बना डाला है तथा ये हमारे प्रभु तथा एकमात्र स्वामी यीशु मसीह को नहीं मानते।

5 Ὑπομνήσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας <ὕμᾶς> ἅπασι «πάντα, ὅτι [ὁ]  
 स्मरण-दिलाना परन्तु तुम-को चाहता-हूँ जानते-हुए तुम एक-बार सब-कुछ कि वह  
[G5279](#) [G1161](#) [G4771](#) [G1014](#) [G1492](#) [G4771](#) [G0530](#) [G3956](#) [G3754](#) [G3588](#)

Κύριος» λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ  
 प्रभु जाति-को से भूमि मिस्र-की बचाकर उस दूसरी-बार उन-को नहीं  
[G2962](#) [G2992](#) [G1537](#) [G1093](#) [G0125](#) [G4982](#) [G3588](#) [G1208](#) [G3588](#) [G3361](#)

πιστεύσαντας, ἀπώλεσεν.  
 विश्वास-करनेवालों-को नाश-किया।  
[G4100](#) [G0622](#)

मैं तुम्हें स्मरण कराना चाहता हूँ (यद्यपि तुम तो इन सब बातों को जानते ही हो) कि जिस प्रभु ने पहले अपने लोगों को मिस्र की धरती से बचाकर निकाल लिया था, बाद में जिन्होंने विश्वास को नकार दिया, उन्हें किस प्रकार नष्ट कर दिया गया।

6 ἀγγέλουσ τε, τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν, ἀλλὰ ἀπολιπόντας  
 स्वर्गदूतों-को भी उन-को नहीं रखनेवालों-को उस अपने आरम्भ-को परन्तु छोड़नेवालों-को  
[G0032](#) [G5037](#) [G3588](#) [G3361](#) [G5083](#) [G3588](#) [G1438](#) [G0746](#) [G0235](#) [G0620](#)

τὸ ἴδιον οἰκητήριον, εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας, δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ  
 उस निज निवास-को के-लिए न्याय महान् दिन-के बन्धनों-में सदा-के के-नीचे  
[G3588](#) [G2398](#) [G3613](#) [G1519](#) [G2920](#) [G3173](#) [G2250](#) [G1199](#) [G0126](#) [G5259](#)

ζόφον τετήρηκεν;  
 अन्धकार रखा-है।  
[G2217](#) [G5083](#)

मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जो दूत अपनी प्रभु सत्ता को बनाए नहीं रख सके, बल्कि जिन्होंने अपने निजी निवास को उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा के लिए हैं बन्धनों में रखा है।

7 ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα, καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον  
 जैसे सदोम और अमोरा और वे आस-पास-की उन नगर उस समान  
[G5613](#) [G4670](#) [G2532](#) [G1116](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4012](#) [G0846](#) [G4172](#) [G3588](#) [G3664](#)

τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι, καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἐτέρας, πρόκεινται  
 रीति-से इन व्यभिचार-करके और जाकर पीछे शरीर पराये रखे-गए-हैं  
[G5158](#) [G3778](#) [G1608](#) [G2532](#) [G0565](#) [G3694](#) [G4561](#) [G2087](#) [G4295](#)

δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.  
 दृष्टान्त आग अनन्त दण्ड भोगते-हुए।  
[G1164](#) [G4442](#) [G0166](#) [G1349](#) [G5254](#)

इसी प्रकार मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि सदोम और अमोरा तथा आस-पास के नगरों ने इन दूतों के समान ही यौन अनाचार किया तथा अप्राकृतिक यौन सम्बन्धों के पीछे दौड़ते रहे। उन्हें कभी नहीं बुझने वाली अग्नि में झोंक देने का दण्ड दिया गया। वे हमारे लिए उदाहरण के रूप में स्थित हैं।

8 Ὅμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι, σάρκα μὲν μαιίνουσιν, κυριότητα  
 इसी-प्रकार फिर-भी भी ये स्वप्न-देखनेवाले शरीर-को तो अशुद्ध-करते-हैं प्रभुता-को  
[G3668](#) [G3305](#) [G2532](#) [G3778](#) [G1797](#) [G4561](#) [G3303](#) [G3392](#) [G2963](#)

δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν.  
 और तुच्छ-समझते-हैं तेजोमय-को और निन्दा-करते-हैं।  
[G1161](#) [G0114](#) [G1391](#) [G1161](#) [G0987](#)

ठीक इसी प्रकार हमारे समूह में घुस आने वाले ये लोग अपने स्वप्नों के पीछे दौड़ते हुए अपने शरीरों को विकृत कर रहे हैं। ये प्रभु के सामर्थ्य को उठाकर ताक पर रख छोड़ते हैं तथा महिमावान् स्वर्गदूतों के विरोध में बोलते हैं।

- 9      ὁ      δὲ      Μιχαὴλ      ὁ      ἀρχάγγελος,      ὅτε      τῷ      διαβόλῳ      διακρινόμενος,  
वह      परन्तु      मीकाएल      वह      प्रधान-स्वर्गदूत      जब      उस      शैतान-से      विवाद-करते-हुए  
[G3588](#)   [G1161](#)   [G3413](#)   [G3588](#)   [G0743](#)   [G3753](#)   [G3588](#)   [G1228](#)   [G1252](#)
- διελέγετο      περὶ      τοῦ      Μωϋσέως      σώματος,      οὐκ      ἐτόλμησεν      κρίσιν      ἐπανεγκεῖν  
बात-करता-था      विषय-में      उस      मूसा-की      देह-के      नहीं      साहस-किया      दोष      लगाने-को  
[G1256](#)   [G4012](#)   [G3588](#)   [G3475](#)   [G4983](#)   [G3756](#)   [G5111](#)   [G2920](#)   [G2018](#)
- βλασφημίας,      ἀλλὰ      εἶπεν,      Ἐπιτιμήσαι      σοι,      Κύριος.  
निन्दा-का      परन्तु      कहा      डॉटि      तुझे      प्रभु।  
[G0988](#)   [G0235](#)   [G3004](#)   [G2008](#)   [G4771](#)   [G2962](#)

प्रमुख स्वर्गदूत माकाईल जब शैतान के साथ विवाद करते हुए मूसा के शव के बारे में बहस कर रहा था तो वह उसके विरुद्ध अपमानजनक आक्षेपों के प्रयोग का साहस नहीं कर सका। उसने मात्र इतना कहा, “प्रभु तुझे डॉटि-फटकारे।”

- 10      οὗτοι      δὲ,      ὅσα      μὲν      οὐκ      οἶδασιν      βλασφημοῦσιν;      ὅσα      δὲ      φυσικῶς,      ὡς  
ये      परन्तु      जितना      तो      नहीं      जानते      निन्दा-करते-हैं      जितना      और      स्वभाव-से      जैसे  
[G3778](#)   [G1161](#)   [G3745](#)   [G3303](#)   [G3756](#)   [G1492](#)   [G0987](#)   [G3745](#)   [G1161](#)   [G5447](#)   [G5613](#)
- τὰ      ἄλογα      ζῶα,      ἐπίστανται,      ἐν      τούτοις      φθείρονται.  
वे      निर्बुद्धि      पशु      समझते-हैं      में      इन      नाश-होते-हैं।  
[G3588](#)   [G0249](#)   [G2226](#)   [G1987](#)   [G1722](#)   [G3778](#)   [G5351](#)

किन्तु ये लोग तो उन बातों की आलोचना करते हैं, जिन्हें ये समझते ही नहीं और ये लोग बुद्धिहीन पशुओं के समान जिन बातों से सहज रूप से परिचित हैं, वे बातें वे ही हैं जिनसे उनका नाश होने को है।

- 11      οὐαὶ      αὐτοῖς!      ὅτι      τῇ      ὁδῷ      τοῦ      Κάιν      ἐπορεύθησαν,      καὶ      τῇ      πλάνῃ  
हाय      उन-पर!      क्योंकि      उस      मार्ग-पर      उस      कैन-के      चले      और      उस      भ्रम-में  
[G3759](#)   [G0846](#)   [G3754](#)   [G3588](#)   [G3598](#)   [G3588](#)   [G2535](#)   [G4198](#)   [G2532](#)   [G3588](#)   [G4106](#)
- τοῦ      Βαλαάμ      μισθοῦ      ἐξεχύθησαν,      καὶ      τῇ      ἀντιλογίᾳ      τοῦ      Κόρε      ἀπώλοντο.  
उस      बिलाम-के      मजदूरी-के      गिर-पड़े      और      उस      विरोध-में      उस      कोरह-के      नाश-हुए।  
[G3588](#)   [G0903](#)   [G3408](#)   [G1632](#)   [G2532](#)   [G3588](#)   [G0485](#)   [G3588](#)   [G2879](#)   [G0622](#)

उन लोगों के लिए यह बहुत बुरा है कि उन्होंने कैन का सा वही मार्ग चुना। धन कमाने के लिए उन्होंने अपने आपको वैसे ही गलती के हवाले कर दिया जैसे बिलाम ने किया था। सो वे ही नष्ट हो जायेंगे जैसे कोरह के विद्रोह में भाग लेने वाले नष्ट कर दिए गए थे।

- 12      Οὗτοί      εἰσιν      οἱ,      ἐν      ταῖς      ἀγάπαις      ὑμῶν,      σπιλάδες;      συνευωχούμενοι      ἀφόβως,  
ये      हैं      वे      में      उन      प्रेम-भोजों-में      तुम्हारे      चट्टानें      साथ-खाते-हुए      निडर-होकर  
[G3778](#)   [G1510](#)   [G3588](#)   [G1722](#)   [G3588](#)   [G0026](#)   [G4771](#)   [G4694](#)   [G4910](#)   [G0870](#)
- ἐαυτοῦς      ποιμαίνοντες;      νεφέλαι      ἄνυδροι,      ὑπὸ      ἀνέμων      παραφερόμεναι,      δένδρα  
अपने-आप-को      चराते-हुए      बादल      निर्जल      द्वारा      हवाओं-के      उड़ाए-जाते      पेड़  
[G1438](#)   [G4165](#)   [G3507](#)   [G0504](#)   [G5259](#)   [G0417](#)   [G3911](#)   [G1186](#)
- φθινοπωρινὰ      ἄκαρπα,      δις      ἀποθανόντα,      ἐκριζωθέντα;  
पतझड़-के      फलहीन      दो-बार      मरे-हुए      उखाड़े-गए।  
[G5352](#)   [G0175](#)   [G1364](#)   [G0599](#)   [G1610](#)

ये लोग तुम्हारे प्रीति-भोजों में उन छुपी हुई चट्टानों के समान हैं जो घातक हैं। ये लोग निर्भयता के साथ तुम्हारे संग खाते-पीते हैं किन्तु उन्हें केवल अपने स्वार्थ की ही चिंता रहती है। वे बिना जल के बादल हैं। वे पतझड़ के ऐसे पेड़ हैं जिन पर फल नहीं होता। वे दोहरे मरे हुए हैं। उन्हें उखाड़ा जा चुका है।

- 13      κύματα      ἄγρια      θαλάσσης,      ἐπαφρίζοντα      τὰς      ἐαυτῶν      αἰσχύνας;      ἀστέρες      πλανῆται,  
लहरें      जंगली      समुद्र-की      उछालते-हुए      उन      अपनी      लज्जा-को      तारे      भटकते  
[G2949](#)   [G0066](#)   [G2281](#)   [G1890](#)   [G3588](#)   [G1438](#)   [G0152](#)   [G0792](#)   [G4107](#)
- οἷς      ὁ      ζόφος      τοῦ      σκότους      εἰς      αἰῶνα      τετήρηται.  
जिन-के-लिए      वह      अन्धकार      उस      घोर-अन्धकार-का      में      युग      रखा-गया-है।  
[G3739](#)   [G3588](#)   [G2217](#)   [G3588](#)   [G4655](#)   [G1519](#)   [G0165](#)   [G5083](#)

वे समुद्र की ऐसी भयानक लहरें हैं, जो अपने लज्जापूर्ण कार्यों का झाग उगलती रहती हैं। वे इधर-उधर भटकते ऐसे तारे हैं जिनके लिए अनन्त गहन अंधकार सुनिश्चित कर दिया गया है।

14 Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις, ἕβδομος ἀπὸ Ἀδάμ, Ἐνώχ, λέγων: Ἴδοὺ,  
 भविष्यवाणी-की और भी इन-के-विषय-में सातवाँ से आदम हनोक-ने कहते-हुए: देखो

ἦλθεν Κύριος ἐν ἀγίαις μυριάσιν αὐτοῦ,  
 आया प्रभु में पवित्र लाखों अपने

आदम से सातवीं पीढ़ी के हनोक ने भी इन लोगों के लिए इन शब्दों में भविष्यवाणी की थी: “देखो वह प्रभु अपने हजारों-हजार स्वर्गदूतों के साथ

15 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ πάντων, καὶ ἐλέγξει πάντα τοὺς ἀσεβεῖς, περὶ  
 करने-को न्याय के-विरुद्ध सब-के और दोषी-ठहराने-को सब उन अभक्तों-को विषय-में

πάντων τῶν ἔργων ἀσεβείας αὐτῶν, ὧν ἠσέβησαν, καὶ περὶ πάντων τῶν  
 सब उन कामों-के अभक्ति-के उन-के जिन-से अभक्ति-की और विषय-में सब उन

σκληρῶν, ὧν ἐλάλησαν κατ’ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς.  
 कठोर-बातों-के जो बोले के-विरुद्ध उस-के पापी अभक्तों-ने।

सब लोगों का न्याय करने के लिए आ रहा है। ताकि लोगों ने जो बुरे काम किए हैं, उन्हें उनके लिए और उन्होंने जो परमेश्वर के विरुद्ध बुरे वचन बोले हैं, उनके लिए दण्ड दे।”

16 Οὗτοί εἰσιν γογγυσταί, μεμψίμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν  
 ये हैं कुड़कुड़ानेवाले भाग्य-को-दोष-देनेवाले के-अनुसार उन अभिलाषाओं-के अपनी

πορευόμενοι; καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα,  
 चलनेवाले और वह मुँह उन-का बोलता-है घमण्ड-की-बातें चापलूसी-करते-हुए मुख-की

ὠφελείας χάριν.  
 लाभ-के लिए।

ये लोग चुगलखोर हैं और दोष ढूँढने वाले हैं। ये अपनी इच्छाओं के दास हैं तथा अपने मुँह से अहंकारपूर्ण बातें बोलते हैं। अपने लाभ के लिए ये दूसरों की चापलूसी करते हैं।

17 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων, ὑπὸ τῶν  
 तुम परन्तु प्रियो स्मरण-करो उन वचनों-का उन पहले-कहे-गए द्वारा उन

ἀποστόλων τοῦ Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ,  
 प्रेरितों-के उस प्रभु-के हमारे यीशु मसीह-के

किन्तु प्यारे मित्रो, उन शब्दों को याद रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों द्वारा पहले ही कहे जा चुके हैं।

18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν, [ὅτι] Ἐπ’ ἐσχάτου τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται, κατὰ  
 कि कहते-थे तुम-से कि पर अन्तिम उस समय-में होंगे ठग-करनेवाले के-अनुसार

τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι, τῶν ἀσεβειῶν.  
 उन अपनी अभिलाषाओं-के चलनेवाले उन अभक्तियों-की।

वे तुमसे कहा करते थे कि “अंत समय में ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर से जो कुछ संबंधित होगा उसकी हँसी उड़ाया करेंगे।” तथा वे अपवित्र इच्छाओं के पीछे-पीछे चला करेंगे।

19 Οὔτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, Πνεῦμα μὴ ἔχοντες.  
 ये हैं वे अलग-करनेवाले, शारीरिक, आत्मा नहीं रखते।  
[G3778](#) [G1510](#) [G3588](#) [G0592](#) [G5591](#) [G4151](#) [G3361](#) [G2192](#)

ये लोग वे ही हैं जो फूट डलवाते हैं।

20 ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς, τῇ ἀγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει  
 तुम परन्तु प्रियो बनाते-हुए अपने-आप-को उस अति-पवित्र तुम्हारे विश्वास-पर  
[G4771](#) [G1161](#) [G0027](#) [G2026](#) [G1438](#) [G3588](#) [G0040](#) [G4771](#) [G4102](#)

ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ προσευχόμενοι;  
 में आत्मा पवित्र प्रार्थना-करते-हुए  
[G1722](#) [G4151](#) [G0040](#) [G4336](#)

ये लोग अपनी प्राकृतिक इच्छाओं के दास हैं। इनकी आत्मा नहीं हैं। किन्तु प्रिय मित्रों तुम एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से अपने अति पवित्र विश्वास में सुदृढ़ करते रहो। पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करो।

21 ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ  
 अपने-आप-को में प्रेम परमेश्वर-के रखो बाट-जोहते-हुए उस दया-की उस  
[G1438](#) [G1722](#) [G0026](#) [G2316](#) [G5083](#) [G4327](#) [G3588](#) [G1656](#) [G3588](#)

Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ζωὴν αἰώνιον.  
 प्रभु-की हमारे यीशु मसीह-की के-लिए जीवन अनन्त।  
[G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#) [G1519](#) [G2222](#) [G0166](#)

हमारे प्रभु यीशु मसीह की करुणा की बाट जोहते हुए जो तुम्हें अनन्त जीवन तक ले जाएगी परमेश्वर की भक्ति में लीन रहो।

22 καὶ οὐς μὲν ἐλεᾶτε, διακρινόμενους;  
 और जिन-पर तो दया-करो सन्देह-करनेवालों-पर  
[G2532](#) [G3739](#) [G3303](#) [G1653](#) [G1252](#)

जो डावाँडोल हैं उन पर दया करो।

23 «οὐς δὲ» σώζετε, ἐκ πυρὸς ἀρπάζοντες; οὐς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ,  
 जिन-को और बचाओ से आग छीनते-हुए जिन-पर और दया-करो में भय  
[G3739](#) [G1161](#) [G4982](#) [G1537](#) [G4442](#) [G0726](#) [G3739](#) [G1161](#) [G1653](#) [G1722](#) [G5401](#)

μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπαλιωμένον χιτῶνα.  
 घृणा-करते-हुए भी उस से उस शरीर-से दागदार वस्त्र-से।  
[G3404](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0575](#) [G3588](#) [G4561](#) [G4695](#) [G5509](#)

दूसरों को आगे बढ़कर आग में से निकाल लो। किन्तु दया दिखाते समय सावधान रहो तथा उनके उन वस्त्रों तक से घृणा करो जिन पर उनके पापपूर्ण स्वभाव के धब्बे लगे हुए हैं।

24 Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπαταίστους, καὶ στῆσαι κατενώπιον  
 उस-को और समर्थ रखने-को तुम-को ठोकर-से-बचाकर और खड़ा-करने-को सामने  
[G3588](#) [G1161](#) [G1410](#) [G5442](#) [G4771](#) [G0679](#) [G2532](#) [G2476](#) [G2714](#)

τῆς δόξης αὐτοῦ, ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει,  
 उस महिमा-के अपनी निर्दोष में आनन्द  
[G3588](#) [G1391](#) [G0846](#) [G0299](#) [G1722](#) [G0020](#)

अब उसके प्रति जो तुम्हें गिरने से बचा सकता है तथा उसकी महिमापूर्ण उपस्थिति में तुम्हें महान आनन्द के साथ निर्दोष करके प्रस्तुत कर सकता है।

25	μόνῳ एकमात्र <a href="#">G3441</a>	Θεῷ परमेश्वर <a href="#">G2316</a>	Σωτῆρι उद्धारकर्ता <a href="#">G4990</a>	ἡμῶν, हमारे <a href="#">G1473</a>	διὰ द्वारा <a href="#">G1223</a>	Ἰησοῦ यीशु <a href="#">G2424</a>	Χριστοῦ मसीह <a href="#">G5547</a>	τοῦ उस <a href="#">G3588</a>	Κυρίου प्रभु-के <a href="#">G2962</a>	ἡμῶν, हमारे <a href="#">G1473</a>	δόξα, महिमा <a href="#">G1391</a>
	μεγαλωσύνη, प्रताप <a href="#">G3172</a>	κράτος, पराक्रम <a href="#">G2904</a>	καὶ और <a href="#">G2532</a>	ἐξουσία, अधिकार <a href="#">G1849</a>	πρὸ पहले <a href="#">G4253</a>	παντὸς सब <a href="#">G3956</a>	τοῦ उस <a href="#">G3588</a>	αἰῶνος युग-से <a href="#">G0165</a>	καὶ और <a href="#">G2532</a>	νῦν, अब <a href="#">G3568</a>	καὶ और <a href="#">G2532</a>
	εἰς में <a href="#">G1519</a>	πάντας सब <a href="#">G3956</a>	τοὺς उन <a href="#">G3588</a>	αἰῶνας. युगों-में। <a href="#">G0165</a>	ἀμήν. आमीन। <a href="#">G0281</a>						

हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता उस एकमात्र परमेश्वर की महिमा, वैभव, पराक्रम और अधिकार सदा-सदा से अब तक और युग-युगांतर तक बना रहें। आमीन!